



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1599]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2007/पौष 6, 1929

No. 1599]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2007/PAUSA 6, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2007

सं. 67 (आर ई-2007)/2004-2009

विषय : केटामाईन के निर्यात का विनियमन।

का.आ. 2194(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009, के पैरा 1.3 और पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3(2) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित “निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, (1 सितम्बर, 2004—31 मार्च, 2009) की अनुसूची 2 के अध्याय-30 में निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा गया है।

2. नई प्रविष्टि निम्न रूप से होगी :

क्रम सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद/विवरण	नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
126क	30039036 30049096	किग्रा.	केटामाईन	मुक्त	स्वापक आयुक्त से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के मद्दे निर्यात अनुमत होगा।

3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/162/357/एम' 99/पी सी-III]

आर. एस. गुजराल, विदेश व्यापार महानिदेशक
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2007

No. 67 (RE-2007)/2004—2009

Subject : Regulation of Export of Ketamine

S.O. 2194(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 read with Section 3(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) and also read with Para 1.3 and Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby adds the following entry in Chapter 30 of Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items (1st September, 2004—31st March, 2009) as amended from time to time.

2. The new entry shall be as follows :

Sl. No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item/Description	Policy	Nature of Restrictions
126A	3003 90 36 3004 90 96	Kg.	Ketamine	Free	Export allowed subject to obtaining No Objection Certificate from Narcotics Commissioner

3. This issues in Public Interest.

[F. No. 01/91/162/357/AM'99/PC-III]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Addl. Secy.